

कर्मचारी चयन आयोग

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020 - पेपर-1। में बैठने के लिए पेपर-1 के परिणाम की घोषणा ।

कर्मचारी चयन आयोग ने कम्प्यूटर आधारित पद्धति में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020 का आयोजन दिनांक 19.11.2020 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।

2. आयोग द्वारा पेपर- I में निर्धारित कट ऑफ को लागू करने के बाद, 1688 अभ्यर्थियों ने पेपर- II में बैठने के लिए उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। उपलब्ध अभ्यर्थियों एवं कट-ऑफ अंकों का श्रेणी-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.क.व.	अना.	अ.दि.	श्र.दि.	द.दि.	अन्य	कुल
कट-ऑफ अंक	116.00	114.00	128.00	110.00	140.00	88.00	71.00	73.00	40.00	-
उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	285	89	689	140	420	47	7	10	1	1688

नोट 1: उपर्युक्त दर्शाए गए अनारक्षित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 120-अ.जा., 22-अ.ज.जा, 431-अ.पि.व., 84-आ.क.व., 10-अ.दि.और 3-द.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में ही दर्शाया गया है।

नोट 2: परीक्षा की विजप्ति के पैरा-16 के अनुसार: पेपर-1 के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए गए हैं:

- (i) अना: 30 %
- (ii) अ.पि.व./ आ.क.व: 25 %
- (iii) अन्य: 20 %

3. उपरोक्त परीक्षा का वर्णनात्मक पेपर (पेपर-II) दिनांक 14.02.2021 (अंतिम) को आयोजित किया जाना है। अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र को पेपर-II परीक्षा के आयोजन से 07 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, जो अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ रहते हैं, वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र समय पर डाउनलोड करने का दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का है।

4. उत्तर कुंजियों के बारे में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और उत्तर कुंजियों में, जहां आवश्यक समझा गया है, संशोधन किया गया है। मूल्यांकन के लिए अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25.01.2021 से 24.02.2021 तक एक महीने की अवधि के लिए अपलोड किया जाएगा।

5. अर्हता प्राप्त/गैर-अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अंक दिनांक 22.01.2021 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुविधा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22.01.2021 से 21.02.2021 तक एक महीने की अवधि के लिए रहेगी। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके अभ्यर्थी डैश बोर्ड पर परिणाम/अंक टैब पर क्लिक करके अपने अंकों को देख सकते हैं।

उप सचिव (गोपनीय-1/1)

19.01.2021